



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 1983/चैत्र 10, 1905
No. 116] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 1983/CHAITRA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय
(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1983

सा०का०मि० 303(अ).—केन्द्रीय सरकार, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बाट और माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बाट और माप (पैकेज में रखी वस्तुएं) संशोधन नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बाट और माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम 1977 में,—

(i) नियम 2 के खंड (घ) में,

(क) उप-खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) कीमत जिसमें भाड़ा है किन्तु स्थानीय कर नहीं है, और जहां ऐसी कीमत पैकेज पर वर्णित की

जाती है वहां पैकेज पर “अधिकतम कीमत
स्थानीय कर अतिरिक्त” शब्द मुद्रित किए जाएंगे;

(ख) उप-खंड (ii) के पश्चात् विद्यमान स्पष्टीकरण को “स्पष्टीकरण 1” के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

स्पष्टीकरण 2. उप-खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए स्थानीय करों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे—

- (i) विक्रय कर
- (ii) चुंगी, और
- (iii) केन्द्रीय विक्रय कर

जहां किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्ग्रहणीय है और फुटकर ब्योहारियों द्वारा वास्तव में संवत्त किया जाता है।

(ii) नियम 6 के उप-नियम (1) के परन्तुक (क) में खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:—

“(i)क) शैलियों में तरल दूध”

(iii) नियम 23 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण—शंकाओं का निराकरण करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि किसी थोक व्याहारी द्वारा किसी फुटकर व्याहारी या किसी अन्य व्यक्ति को, विक्रय, वितरण या परिदत्त इस नियम के अर्थ में फुटकर विक्रय है।

(iv) तृतीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

तृतीय अनुसूची

(नियम 5 देखिए)

विनिर्दिष्ट मात्राओं में पैक की गई वस्तुएं

1. निम्नलिखित वस्तुएं केवल ऐसे वजन, मात्रा या संख्या के अनुसार पैक की जाएंगी जो उनके सामने दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है।

क्रम सं०	वस्तुएं	कितनी मात्रा पैक की जाएगी
1	2	3
1.	बाल आहार तथा छोटे बच्चे का आहार	200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम।
2.	बिस्कुट	(i) कैंटीन पैक: 25 ग्राम और 30 ग्राम। (ii) विनिर्दिष्टतया रेप किए गए पैक : 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम और 110 ग्राम। (iii) वायुरोधी कार्टन: 100 ग्राम, 120 ग्राम, 140 ग्राम, 150 ग्राम, 160 ग्राम, 170 ग्राम, 180 ग्राम, 190 ग्राम, 200 ग्राम, 210 ग्राम, 220 ग्राम, 230 ग्राम। (iv) फेंसी टिन और ड्रम: कोई निर्बंधन नहीं है किन्तु 10 ग्राम के गुणजों के पैक करने का प्रयास किया जाएगा।

1	2	3
3.	ब्रेड जिसमें ब्राउन ब्रेड भी सम्मिलित है किन्तु बंटी सम्मिलित नहीं है।	100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 800 ग्राम, 1200 ग्राम।
4.	मक्खन, पनीर और सह-बद्ध उत्पाद	25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और तत्पश्चात् 5 किलोग्राम के गुणजों में।
5.	अनाज और दाल	100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और तत्पश्चात् 5 किलोग्राम के गुणजों में।
6.	अनाज उत्पाद	50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 1 कि०ग्रा०, 2 कि०ग्रा०, 5 कि०ग्रा० और तत्पश्चात् 5 कि०ग्रा० के गुणज में पूर्वोक्त मात्राओं के अतिरिक्त, शीघ्र पकने वाली जई, 800 ग्राम की मात्रा में भी पैक की जा सकेगी।
7.	सिगरेट, सिगार और वैसी ही वस्तुएं	5, 10, 20, 50 और तत्पश्चात् 50 के गुणजों में उपर्युक्त मात्राओं के अतिरिक्त सिगार या चुरुट एक पैकेज में 25 भी हों सकेंगी।
8.	सफाई और स्वच्छता घोल पदार्थ	50 मिलीलिटर, 100 मिलीलिटर, 200 मिलीलिटर, 500 मिलीलिटर, 1 लिटर और तत्पश्चात् 1 लिटर के गुणजों में।
9.	सफाई पाउडर	50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम और तत्पश्चात् 500 ग्राम के गुणजों में।
10.	संघनित दुग्ध	200 ग्राम, 400 ग्राम, 1 कि०ग्रा० और तत्पश्चात् 1 कि०ग्रा० के गुणजों में।

1	2	3	1	2	3
11. काफी, कोको और अन्य सामग्री जिसका पेय वस्तुओं के रूप में प्रयोग किया जा सके।	25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम और तत्पश्चात् 1 किलोग्राम के गुणजों में।				आयतन में घोषित की जाए तो वही संख्या यथास्थिति मिलीलिटरों या लिटरों में।
11अ. चाय	25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, †200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम और तत्पश्चात् 1 किलोग्राम के गुणजों में।		15क. गह्व		25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 कि०ग्रा०, 2 कि०ग्रा०, 5 कि०ग्रा० और तत्पश्चात् 5 कि०ग्रा० में गुणजों में,—
12. पकाने के तेल, वनस्पति, घी मार्गरीन।	100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 कि०ग्रा०, †2 कि०ग्रा० 4 कि०ग्रा०, 5 कि०ग्रा० और तत्पश्चात् 5 कि०ग्रा० के गुणजों में (परिष्कृत खाद्य तेलों के लिए †15.5 कि०ग्रा० अन्य खाद्य केलों के लिए †16.0 कि०ग्रा० वनस्पति के लिए †16.5 कि० ग्राम और शुद्ध घी के लिए †17.0 कि०ग्रा०।		16. आइसक्रीम बट्टियों में		50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 कि०ग्राम और तत्पश्चात् 1 कि०ग्राम के गुणजों में, यदि शुद्ध मात्रा में आयतन के रूप में घोषित की जाए तो वही मात्रा यथास्थिति, मिली-लिटरों या लिटरों में,—
13. प्रसाधन सामग्री और इत्र जिसमें सभी प्रकार की क्रीम सम्मिलित है सिवाय दंत और दाढ़ी बनाने की क्रीम के।	25 ग्राम, 30 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम, 140 ग्राम, 160 ग्राम, 180 ग्राम, 200 ग्राम, और तत्पश्चात् 100 ग्राम के गुणजों में। यदि शुद्ध मात्रा आयतन के अनुसार घोषित की जाए तो वही यथास्थिति संख्या मिलीलिटरों या लिटरों में।		17. आइसक्रीम (कणों में)		25 ग्राम और तत्पश्चात् 25 ग्राम के गुणजों में। यदि शुद्ध मात्रा आयतन में घोषित की जाए तो वही मात्रा यथास्थिति, मिलीलिटरों या लिटरों में;
14. केश तेल (सुगंधित)	50 मिलीलिटर, 75 मिलीलिटर, 100 मिलीलिटर, 200 मिलीलिटर, 300 मिलीलिटर, 400 मिलीलिटर, 500 मिलीलिटर, 1 लिटर और तत्पश्चात् 1 लिटर के गुणजों में।		18. जेम, चटनी, अचार और वैसी ही अन्य वस्तुएं :		
15. केश तेल (असुगंधित)	100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और तत्पश्चात् 5 किलोग्राम के गुणजों में। यदि शुद्ध मात्रा		(क) अचार, चटनी और वैसी ही अन्य वस्तुएं।		50ग्राम, 100ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम और 1 कि०ग्राम।
			(ख) खुले मुंह के स्वच्छ आघनों में जैम, मार्म-लेड और जेली।		500 ग्राम, 1050 ग्राम और 4 कि०ग्रा०।
			(ग) बोटलों में जैम, मार्मलेड और जेली।		25 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 कि०ग्रा०।
			(घ) स्नैक्स, शर्बत और क्रश		700 मि०लि० और 1 लिटर।
			(ङ) खुले मुंह के स्वच्छ आघनों में फल का रस, और वनस्पति का रस।		165 मि०लि०, 240 मि०लि० 425 मि०लि० और 800 मि०लि०।
			(च) बोटलों में फल का रस और वनस्पति का रस।		200 मि०लि०, 500 मि०लि०, 700 मि०लि० और 1 लिटर।
			(छ) तैयार पेय		200 मि०लि०, 500 मि०लि०, 700 मि०लि० और 1 लिटर
			19. दुग्ध द्रव मीठा किया हुआ, मीठा रहित सुध-चिक।		50 मिलीलिटर, 100 मिली-लिटर, 200 मिलीलिटर, 500 मिलीलिटर, 1 लिटर, 2

1	2	3
		लिटर, 5 लिटर और तत्पश्चात् 5 लिटर के गुणजों में।
20. दुग्ध चूर्ण		100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम और तत्पश्चात् 500 ग्राम के गुणजों में।
21. दियासलाई डिब्बियों में		10, 20, 50, 60 और 100 ग्राम और तत्पश्चात् 50 के गुणजों में।
22. साबुनरहित अपमार्जक		40 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और तत्पश्चात् 1 किलोग्राम के गुणजों में।
23. नट, बोल्ड, कीलें, स्क्रू और वैसी ही वस्तुएं (बक्सों में)		5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 और तत्पश्चात् 1000 के गुणजों में।
24. रसगुल्ला, गुलाबजामुन और अन्य मिठाई यदि उनका गिनती में विक्रय किया जाए।		5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 और तत्पश्चात् 50 के गुणजों में।
25. चावल (पाउडर किया हुआ) फ्लोर, आटा, रवा, सूजी।		100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और तत्पश्चात् 5 किलोग्राम के गुणजों में।
26. नमक		50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम तत्पश्चात् 5 किलोग्राम के गुणजों में।
27. दाढ़ी बनाने के ब्लेड		1, 2, 3, 5, 10 और तत्पश्चात् 10 के गुणजों में।
28. दाढ़ी बनाने की त्रीम		30 ग्राम, 50 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम, 150 ग्राम और तदनन्तर 50 ग्राम के गुणजों में।
29. साबुन:		
(क) कपड़े धोने का साबुन		50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम और तत्पश्चात् 50 ग्राम के गुणजों में।

1	2	3
(ख) साबुनरहित अपमार्जक टिकियां/बार।		50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम और तत्पश्चात् 100 ग्राम के गुणजों में।
(ग) नहाने के साबुन की टिकियां।		25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम, 150 ग्राम, और तत्पश्चात् 50 ग्राम के गुणजों में।
30. (i) हल्के पेय और अन्य अनस्वीय पेय जिनके अन्तर्गत वनस्पति और फलों के रस भी हैं।		50 मि० लि०, 100 मि० लि०, 200 मि० लि०, 250 मि० लि०, 300 मि० लि०, 500 मि० लि०, 750 मि० लि० 1 लिटर और तत्पश्चात् 1 लिटर के गुणज में।

यदि बाट और माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) संशोधन नियम, 1980 के प्रारम्भ से पूर्व, मानक मात्रा से भिन्न कोई मात्रा किसी बोतल पर किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इस प्रकार अंकित, समुद्भूत या उपदर्शित की गई है कि उसे बिना बोतल तोड़े परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तो ऐसी बोतलों को उस समय तक प्रयोग में लिया जा सकता है जब तक कि वे समाप्त न हो जाएं; किन्तु इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् विनिर्मित किसी नई बोतल में कोई भी हल्का पेय तब तक नहीं भरा जाएगा जब तक कि ऐसी नई बोतलें ऊपर विनिर्दिष्ट मात्राओं के अनुरूप नहीं हैं।

(ii) खनिज जल 650 मि० लि०।

31. मसाले		25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम और तत्पश्चात् 500 ग्राम के गुणजों में।
32. चीनी, चीनी के क्यूब खांडसारी।		100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और तत्पश्चात् 5 किलोग्राम के गुणजों में।
33. (क) टाफियां, उबली हुई कन्फैक्शनरी और वैसी ही अन्य वस्तुएं।	(i)	10 की संख्या तक, संख्याओं में परन्तु यह तब जब कि शुद्ध अन्तर्वस्तु 20 ग्राम से अधिक नहीं है और तत्पश्चात् भार के अनुसार निम्नलिखित रीति से :—

25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम 300 ग्राम, 500 ग्राम

1	2	3
		1 कि०ग्रा०, और तदनन्तर 1 कि०ग्रा० के गुणजों में।
		(ii) फैंसी टिन और ड्रम कोई निर्बन्धन नहीं किन्तु 10 ग्राम के गुणजों में पैक करने का प्रयास किया जाएगा।
(ख) चाकलेट और चाकलेट उत्पाद।	25 ग्राम, 30 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम और तदनन्तर 20 ग्राम के गुणजों में।	
34. दन्त पेस्ट	50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम, 150 ग्राम, और तत्पश्चात् 50 ग्राम के गुणजों में।	
टिप्पण : जहाँ कोई वस्तु तारंकित (+) मात्रा में पैक की जाती है तो ऐसी वस्तु को, ऐसी मात्रा में पैक करने की प्रथा जितना शीघ्र संभव हो समाप्त कर दी जाएगी और किसी भी दशा में 31 मार्च, 1984 के पश्चात् जारी नहीं रखी जाएगी।		

[फा० सं० डब्ल्यू एम-10(4) 83]

एस०वी०एम० त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES
(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1983.

G.S.R. 303(E).—In exercise of the powers conferred by section 83 of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977, namely:—

1. (1) These rules may be called the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Amendment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977,—

(i) in rule 2, in clause (s),—

(a) for sub-clause (i), the following shall be substituted, namely:—

“(i) Price inclusive of freight but exclusive of local taxes, and where such price is mentioned on the package, there shall be printed on the package the words “Max. price...local taxes extra”;;”;

(b) after sub-clause (ii), the existing Explanation shall be numbered as ‘Explanation I’, and after Explanation I, as so numbered, the following shall be inserted, namely:—

“Explanation II—For the purposes of sub-clause (ii), local taxes” Include—

- (i) Sales tax,
- (ii) Octroi, and
- (iii) Central Sales tax,

Where leviable and actually paid by the retail dealer under any law in force in a particular area.”;

(ii) in rule 6, in sub-rule (1), in Proviso (A), after clause (ii), the following shall be inserted, namely:—

“(ii a) liquid milk in pouches;”;

(iii) in rule 23, after sub-rule (2), the following Explanation shall be inserted, namely:—

“Explanation—For the removal of doubts, it is hereby declared that a sale, distribution or delivery by a wholesale dealer to a retail dealer or other person is a ‘retail sale’ within the meaning of this sub-rule.”;

(iv) for the Third Schedule, the following shall be substituted, namely:—

THE THIRD SCHEDULE
(See Rule 5)

Commodities to be packed in specified quantities

1. The following commodities shall be packed only in such quantities by weight, measure or number as are specified in the corresponding entries against them.

Sl. No.	Commodities	Quantities in which to be packed
1	2	3
1.	Baby food including weaning food	200g, 400g, 500g, 1 kg, 2kg, 5kg, and 10 kg.
2.	Biscuits	(i) Canteen packs: 25g and 30g.

1	2	3	1	2	3
		(ii) Exclusive Wrap pack: 50g, 60g, 70g, 80g, 90g, 100g and 110g.	10. Condensed milk	200g, 400g, 1kg and thereafter in multiples of 1kg.	
		(iii) Air tight cartons: 100g, 120g, 140g, 150g, 160g, 170g, 180g, 190g, 200g, 210g, 220g, 230g,	11. Coffee, cocoa and other material which may be reconstituted as beverages after	25g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg and thereafter in multiples of 1kg.	
		(iv) Fancy tins and drums : No restriction but endeavour shall be made to pack in multiples of 10g.	11A. Tea	25g, 50g, 100g, 200 +g, 250g, 500g, 1kg and thereafter in multiples of 1 kg.	
3. Bread including brown bread but excluding bun	100g, 200g, 400g, 800g, 1200g.		12. Cooking oils, Vanaspati, ghec, margarine	100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 4+kg, 5kg and thereafter in multiples of 5kg. (15.5+kg for refined edible oils, 16.0+kg for other edible oils, 16.5+kg for vanaspati and 17.0+kg for pure ghee).	
4. Butter, Cheese and allied products	25g, 50g, 100g, 200g, 250g, 400g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg and thereafter in multiples of 5 kg.		13. Cosmetics and perfumes including all creams except dental and shaving	25g, 30g, 35g, 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g, 90g, 100g, 120g, 140g, 160g, 180g, 200g and thereafter in multiples of 100g.	
5. Cereals and pulses	100g, 200g, 500g, 1 kg 2kg, 5kg, and thereafter in multiples of 5kg.			If net quantity is declared by volume the same number in millilitres or litres, as the case may be.	
6. Cereal products	50g, 100g, 200g, 400g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, and thereafter in multiples of 5kg. Besides the quantities aforesaid, quick cooking oats may also be packed in 800g.		14. Hair oils (perfumed)	50 75ml, 100ml, 200ml, 300ml, 400ml, 500ml, 1 litre and thereafter in multiples of 1 litre.	
7. Cigarettes, Cigars and the like	5, 10, 20, 50 and thereafter in multiples of 50. Besides the quantities aforesaid, packages containing cigars or cheroots may contain 25.		15. Hair oils (unperfumed)	100g, 200g, 500g, 1kg 2kg, 5kg, and thereafter in multiples of 5kg. If net quantity is declared by volume the same number in millilitres or litres, as the case may be.	
8. Cleaning and sanitary fluids	50ml, 100ml, 200 ml, 500ml, 1 litre and thereafter in multiples of 1 litre.		15A. Honey	25g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg and thereafter in multiples of 5kg.	
9. Cleaning powders	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 1.5kg and thereafter in multiples of 500g.				

1	2	3	1	2	3
16. Ice cream (in bricks)	50g, 100g, 250g, 500g, 1kg and thereafter in multiples of 1kg. If the net quantity is declared by volume, the same number in millilitres or litres, as the case may be.		22. Non-soapy detergents	40g, 50g, 100g, 200g, 500g, 700g, 1kg, 1.5kg, 2kg and thereafter in multiples of 1kg.	
17. Ice cream (in cups)	25g and thereafter in multiples of 25g. If the net quantity is declared by volume, the same number in millilitres or litres, as the case may be.		23. Nuts, bolts, nails, screws and the like (in boxes)	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 and thereafter in multiples of 1000.	
18. Jams, sauces, ketchup and the like			24. Rassogulla, gulab-jamun and other sweets, if sold by number.	5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 and thereafter in multiples of 50.	
(a) Ketchup, sauces and the like	50g, 100g, 200g, 500g, 700g and 1kg.		25. Rice (powdered), flour, atta, rawa, suji	100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, and thereafter in multiples of 5kg.	
(b) jams, marmalades and jellies in open top sanitary containers	500g, 1050g, and 4kg.		26. Salt	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg and thereafter in multiples of 5kg.	
(c) jams, marmalades and jellies in bottles.	25g, 100g, 200g, 500g and 1kg.		27. Shaving blades	1, 2, 3, 5, 10 and thereafter in multiple of 10.	
(d) squashes, syrups and crushes	700 ml and 1 litre.		28. Shaving cream	30g, 50g, 70g, 100g, 125g, 150g, and thereafter in multiples of 50g.	
(e) fruit juices and vegetable juices in open top sanitary containers	165ml, 240ml, 425ml and 800ml.		29. Soaps		
(f) fruit juices and vegetable juices in bottles	200ml, 500ml, 700ml and 1 litre.		(a) Laundry soap	50g, 75g, 100g and thereafter in multiples of 50g.	
(g) ready to serve beverages	200ml, 500ml, 700ml, and 1 litre.		(b) non-soapy detergent cakes/bars	50g, 75g, 100g, 125g, 150g, 250g, 300g, and thereafter in multiples of 100g.	
19. Milk-liquid sweetened, unsweetened, flavoured	50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1 litre, 2 litres, 5 litres and thereafter in multiples of 5 litres.		(c) Toilet Soap cakes	25g, 50g, 75g, 80†g, 85†g, 100g, 120†g, 150g, and thereafter in multiples of 50g.	
20. Milk powder	100g, 200g, 500g, 1 kg and thereafter in multiples of 500g.		30. (i) Soft drinks and other non-alcoholic beverages including vegetable and fruit juices.	50ml, 100ml, 200ml, 250ml, 300ml, 500ml, 750ml, 1 litres and thereafter in multiples of 1 litre.	
21. Match sticks in boxes	10, 20, 50, 60 and 100 and thereafter in multiples of 50.				(Where, before the commencement of the Standards of weights and Measures (Packaged Commodities)

1	2	3	1	2	3
		Amendment Rules, 1980, any quantity other than the standard quantity was moulded, embossed or indication on any bottle by any chemical process in such a way that the quantity so indicated cannot be altered without breaking the bottle, such bottle may be used so long as it lasts; but no soft drink shall be bottled in any new bottle manufactured after such commencement unless such new bottle conforms to the quantities specified above.	33. (a) Toffees, boiled confectionery and the like	(i) Upto 10 pieces, by number provided that the net content does not exceed 20g and thereafter by weight as follows:— 25g, 50g, 100g, 200g, 300g, 500g, 1kg and thereafter in multiples of 1kg. (ii) Fancy tins and drums; No restriction, but endeavour shall be made to pack in multiples of 10g.	
	(ii) Mineral water	650ml.	(b) Chocolate and chocolate products	25g, 30g, 35g, 40g, 50g, 60g, 70g, 80g, 90g, 100g and thereafter in multiples of 20g.	
31. Spices		25g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg and thereafter in multiples of 500g.	34. Tooth paste	50g, 75g, 100g, 125g, 150g, and thereafter in multiples of 50g.	
32. Sugar, sugar cubes, khandasari		100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg and thereafter in multiples of 5kg.	<p>NOTE:— Where any commodity is packed in a quantity so marked with a dagger (†) the practice of packing such commodity in such quantity shall be discontinued as early as possible but in no case later than 31st March, 1984.</p> <p>[E.No. WM-10(4)/83] S.V.M. TRIPATHI, Jt. Secy.</p>		